


388



mlk
Ajay Pal Stamp Vendor
Regd. No. 35
Distt. Courts, Gurgaon

T.D No: 11127
Date: 1-8-8

Attested
for Sub Registrar
Gurgaon 2 MAY 2022



DED05010208933

This Transfer deed has been presented for registration in accordance with provisions of Rule 119, Part 1-B, Chapter 1 of the Haryana Stamp Manual, 1970. The provisions of the aforesaid rules have been directed to be implemented by the Financial Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Revenue Department vide letter bearing Memo. no. 2940-STR-1-2000/10748, Chandigarh dated 11.10.2000 pertaining to exemption from stamp duty in a case where transfer takes place between parents company and subsidiary company as contemplated under Rule 119(mentioned above) of the Haryana Stamp Manual, 1970.

TRANSFER DEED

Nature of Document	:	Transfer Deed
Village/District	:	Tigra, Tehsil & Distt. Gurgaon
Area	:	11 Kanal 5 Marla
Total Consideration	:	Rs.1,52,98,277/-
Stamp Duty	:	Nil
Stamp No./Date	:	Not Applicable

THIS TRANSFER DEED is executed at Gurgaon on 31st^h day of July, 2008

Between

M/s Waif Propbuild Pvt.Ltd., having its registered Office at 109, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001, represented through its authorized Signatory Anil Mishra, duly authorised vide Company Resolution dated 31-07-2008 (hereinafter referred to as 'TRANSFEROR', which expression shall unless repugnant to the context mean and includes their legal heirs, successors, administrators, executors, nominees & assigns) on one hand.

AND

M/s Hammock Buildwell Pvt.Ltd, having its registered office at 17-B, Asaf Ali Road, New Delhi- 110002, through its authorized Signatory Sonu Bajaj by way of Company Resolution dated 31-07-2008 (hereinafter referred to as 'TRANSFeree', which expression shall unless repugnant to the context mean and includes their legal heirs, successors, administrators, executors, nominees & assigns) on the other hand

22

for Sub Registrar
Gurgaon 2 MAY 2009

प्रलेख नः 11127

दिनांक 01/08/2008

डीड संबंधी विवरण		
डीड का नाम PURCHASE FROM COMPENSATION		
तहसील/सब तहसील गुडगांवा	गांव/शहर तिगरा	स्थित तिगरा
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
घाटी	1 Acre 3 Kanal 5 Marla	
धन संबंधी विवरण		
राशि 15,298,177.00 रुपये	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 0.00 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये	

Drafted By: Mahesh K Chauhan Adv.

यह प्रलेख आज दिनांक 01/08/2008 दिन शुकवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी M/s. Waif
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी 109 New Delhi House 27 Barakhamba Road New Delhi द्वारा पंजीकरण हेतु
प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
गुडगांवा

M/s. Waif Prop build Pvt.Ltd. thru Anil Mishra(OTHER)

उपरोक्त विक्रेता श्री/श्रीमती/कुमारी Sonu Bajaj क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर
तथा समक्षकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रुपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता
को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अधिम अदा की गई राशि को लेन देन को स्वीकार किया।

दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Mahesh K. Chauhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी Adv. Gurgaon
व श्री/श्रीमती/कुमारी Surender Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Kartar Singh निवासी Gurgaon Gaon Gurgaon ने
साक्षी नः 1 को हम नम्रस्वर/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 01/08/2008

23

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
गुडगांवा

WHEREAS, the TRANSFEROR is the legal, lawful owner in possession of piece and parcel of agricultural land bearing Khewat/Khata No. 48/55, Mustil No. 36, Kila No.. 2(7-10), 9(3-15), salam, total land admeasuring 11 Kanal 5 Marla vide Jamabandi Year 2001-2002 & Mutation No.1484 situated in the revenue estate of village Tigra, Tehsil & District Gurgaon, Haryana (herein after referred to as the "Said Land").

WHEREAS in terms of aforesaid Transfer deed and revenue documents TRANSFEROR is full fledged and lawful owner in possession of the land referred to above and is competent and entitled to Transfer the same in favour of the TRANSFEREE.



WHEREAS Shri Anil Mishra has been duly authorized vide resolution dated 31-07-2008 duly passed by Board of Directors of the TRANSFEROR to accept Transfer consideration, execute and get registered present Transfer deed and to deliver actual physical possession of the land described above to the TRANSFEREE.

WHEREAS Shri Sonu Bajaj has been duly authorized vide resolution dated 31-07-2008 duly passed by Board of Directors of the TRANSFEREE to pay the Transfer consideration amount, execute and get registered present Transfer deed and to obtain actual physical possession of the land described from the TRANSFEROR.

WHEREAS the TRANSFEROR was/is desirous of Transferring the aforesaid land together with all rights, easements etc. appurtenant thereto. The TRANSFEROR had approached the TRANSFEREE for Transfer of the land hereinbefore described and the same is being transferred in favour of the TRANSFEREE on the terms and conditions set out in this Transfer deed.

NOW THIS TRANSFER DEED WITNESSETH AS UNDER:-

1. That the total Transfer consideration in respect of has been settled at Rs. 1,52,98,277/- (Rupees One Crore Fifty Two Lacs Ninety Eight Thousand Two Hundred Seventy Seven only). This Transfer consideration amount shall be subsequently paid by the TRANSFEREE to the TRANSFEROR at mutual convenience.
2. That the TRANSFEREE has become full fledged and lawful owner in possession of the aforesaid land alongwith all rights appurtenant thereto and TRANSFEREE shall be entitled to hold and enjoy the same absolutely without any let, hindrance, interruption, disturbances, claim or demand

  24
Attested
for Sub Registrar
Gurgaon 2 MAY 2022

Reg. No.
11127

Reg. Year
2008-2009

Book No.
1



चिकित्सा

चिकित्सा
Anil Mishra



कंता

कंता
Soni Bajaj



गवाह

गवाह 1: Mahesh K. Chaudhary

गवाह 2:- Surender Kumar

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 11,127 आज दिनांक 01/08/2008 को बही न: 1 जिल्द न: 9,753 के पृष्ठ न: 140 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 832 के पृष्ठ सख्या 52 से 53 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने दस्तावेज/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 01/08/2008

उप/सयुक्त पंजीयत/अधिकारी
गुडगाँवा

वसीका नं० 11127 की बही नं० 1
जिल्द नं० 10787 पर 5-6 पर
दस्तावेज नं० 1
जिल्द नं० 885 पर 93
दिनांक 01/08/08 को दर्ज किया गया।


25

सब रजिस्ट्रार
गुडगाँवा

from the TRANSFEROR or any person claiming under or through the TRANSFEROR. The TRANSFEROR has not been left with any right, title or interest whatsoever with the aforesaid land. Actual physical possession has been delivered at the spot to the TRANSFEREE.

3. That the TRANSFEREE shall be entitled to use and utilize the aforesaid land in any manner deemed fit by it and the TRANSFEROR undertakes not to raise any objection to the same. The TRANSFEROR has assured the TRANSFEREE that TRANSFEROR has got a clear marketable title in respect of the land detailed above and that it is entitled to Transfer the same to the TRANSFEREE. TRANSFEROR has further assured the TRANSFEREE that the property being sold is free from all types of encumbrances, acquisition proceedings, charges, taxes, liens, restraint orders attachments etc. and no litigation or dispute whatsoever is pending in respect of the same before any court or authority. TRANSFEROR has further assured the TRANSFEREE that it has not entered into any agreement of Transfer in favour of any other third party relating to the land detailed above except the agreement in favour of mentioned above.
- 4 That TRANSFEROR further undertakes that in case any outstanding amount or dues, taxes, charges or liens etc. are discovered subsequently in that event the TRANSFEROR shall be liable to pay the same.
- 5 That the TRANSFEROR has assured the TRANSFEREE that there are no dues, cesses, rates or taxes due or outstanding to any one in respect of the land sold to the TRANSFEREE and in case any such dues are found payable the same shall be paid by the TRANSFEROR. The TRANSFEROR has assured the TRANSFEREE that no amount towards any account upto date of execution and registration of this Transfer deed is outstanding or payable to any authority /agency and in case any such dues are found payable upto the date of execution of this Transfer deed, the same shall be paid by the TRANSFEROR.
6. That in the event of aforesaid land / part thereof being lost to the TRANSFEREE on account of defective title of the TRANSFEROR or on account of any concealment on the part of the TRANSFEROR, in that event the TRANSFEROR shall recoup the TRANSFEREE for such loss together with all litigation expenses incurred by the TRANSFEREE and damages suffered by it.
7. That the TRANSFEROR is not left with any right, interest or title in the land in question which has become the absolute property of the TRANSFEREE.




Attested
for Sub Registrar
Gurgaon
26
02 MAY 2024

8. That the TRANSFEREE shall be entitled to get sanctioned mutation in its favour on the basis of this Transfer deed so as to reflect its name as owner in possession of the same. TRANSFEROR undertakes not to raise any objection to the same. TRANSFEROR shall execute all such documents and do all requisite acts, deeds and things as may be required for getting incorporated name of the TRANSFEREE as owner in the revenue record.


IN WITNESS WHEREOF both TRANSFEROR and TRANSFEREE
aforementioned have executed this Transfer deed on the date and
place first mentioned above.

WITNESSES


Attested By
Mahesh K. Chauhan
Advocate
Gurgaon



TRANSFEROR

M/s Waif Propbuild Pvt.Ltd through its
authorized Signatory


Mahesh K. Chauhan
Advocate, Gurgaon


TRANSFEREE

M/s Hammock Buildwell Pvt.Ltd
through its authorized Signatory


Surender Singh
Slosh Kaur Singh
R10 1 Gurgaon
Village Gurgaon

27

Attested
for Sub Registrar
Gurgaon

02 MAY 2022

